CIN: L17111UP1988PLC009594



Sybly Industries Ltd.

Date: 08.09.2021

The Manager
Department of Corporate Relationship
BSE Limited
Rhizzerelgeinthy Tower
Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 531499 Scrip ID: SYBLY

Sub:-Newspaper advertisement of Notice of Annual General Meeting scheduled to be held on September 30,2021

Pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosing herewith copy of Notice of Annual General Meeting and Remote E-voting information published in following News paper.

A. Financial Express dated 08.09.2021(English Daily)

B. Jansatta dated 08.09.2021(Hindi Daily)

This is for your information & record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Sybly Industries Limited

SagarAgarwal

(Company Secretary & Compliance Officer)

M.No.: A57936

Encl. as above

Works & Regd. Office: Pawan Puri, Muradnagar, Distt. Ghaziabad Uttar Pradesh - 201206 (INDIA)

Tel.: 01232-261765, 261288, 261521 E-mail: info@sybly.com, sybly@rediffmail.com, syblyindia@gmail.com Website: www.sybly.com



Sybly Industries Ltd.

CIN: L17111UP1988PLC009594 Registered Office: Pawan Puri, Muradnagar, Ghaziabad (U.P.)-201206 Email Id: sybly@rediffmail.com, info@sybly.com, www.sybly.com Contact No.: 01232-261521

Notice of AGM:

NOTICE is hereby given that the 33" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of SYBLY INDUSTRIES LIMITED will be held on Thursday, September 30, 2021 at 11:30 A.M. at Pawan Puri, Muradnagar, Ghaziabad-201206 (UP), to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice of AGM dated August 28", 2021. The Notice of the AGM along with the Explanatory Statement thereto and the Annual Report for the year ended March 31, 2021 has been separately sent in electronic mode to all those Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s)/The Registrar and Share Transfer Agent (RTA). Physical copies of the Notice of AGM have been sent to all other Members who have not registered their email addresses, at their registered addresses, by the permitted mode. The Annual Report and a copy of the Notice of AGM is also available on the website of the Company (www.sybly.com) and on the website of CDSL at https://www.evotingindia.com.

E-Voting:

The Company has entered into an arrangement with Central Depository Securities Limited ('CDSL") for facilitating remote e-voting services.

- amended and regulation 44 of SEBI (LODR) Reg. 2015, the business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means. The company is pleased to provide remote e voting facility to all its Shareholders.
- through Remote E-voting and at the venue of AGM is Thursday, September 23, 2021 (Cut Off Date). Members holding shares either in physical or dematerialized form, as on the Cut Off Date may either cast their votes, electronically through electronic voting system of Central Depositories Services Limited(CDSL) i.e. https://www.evotingindia.com from a place other than the venue of AGM ("Remote E-voting") or at venue of the AGM through
- (iii) the Remote E-voting shall commence on September 27, 2021 at 10:00 AM (Monday) and end on September 29, 2021 at 5:00 PM (Wednesday). The Remote E-voting facility shall be disabled by CDSL after September 29, 2021 at 5:00 PM (Wednesday) and no voting shall be allowed beyond the said date and time and once the vote on the resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
- (iv) any person who has acquired shares and becomes members of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holds shares as on the Cut Off date i.e. September 23, 2021 (Thursday) may obtain their user ID and password for e-voting from the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or CDSL by connecting to the CDSL or RTA at the following contacts:
- Tel. No.:- 022-23058738 and 22-23058542-43, E-mail ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com,beetal@beetalfinancial.com.
- (v) the facility of voting through Ballot paper shall be made available at the venue of AGM;
- (vi) a Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through Remote E-voting but shall not be allowed to cast his vote again in the AGM;
- shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting or voting at venue of the AGM through Ballot Paper. Notice of AGM of the company can be downloaded from the link
- http://www.sybly.com/wp-content/uploads/2021/09/Notice_AGM_ Sybly_2021.pdf In case of any queries, members may refer the "Frequently Asked Questions

(FAQs) for members and e-voting user manual for members" available under the 'Downloads' section of www.evotingindia.com. For any further grievance related to the remote e-voting, members may call on the toll free no. 1800225533 or contact Mr. Anand Tirodkar, Mr. Ankit Bandivadekar, CDSL, Trade World, 'Phiroze Jeejeebhoy Towers, 17th Floor, Dalal Street, Mumbai 400001, at the designated email ids: helpdesk.evoting@cdslindia.com or telephone no. Tel: (022) 23058615, (022-23058634) Fax: (022) 23002043. The AGM will be held at the said venue by strictly adhering to the Social Distancing

Norms and other Safety Protocols including Face Masks, Hand Sanitization etc. as per the latest guidelines / advisories / SOPs issued by the Ministry of Health & Family Welfare, Govt of India and the state Govts amid COVID 19 pendemic.

For SYBLY INDUSTRIES LIMITED

(Sagar Agarwal)

Place: Muradnagar

Date: September 06, 2021 Company Secretary & Compliance Officer M. No.: A57936

STEEL STRIPS WHEELS LIMITED

CIN: L27107PB1985PLC006159

Regd Off: Village Somalheri/ Lehli, P.O. Deppar, Tehsil Derabassi, Distt. Mohali (Pb.) Tel: +91-172-2793112. Fax: +91-172-2794834 Email: ssl ssg@glide.net.in. Website: www.sswlindia.com

NOTICE OF THE 35th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Members of th

Company will be held on Thursday, September 30, 2021 at 11.00 a.m. at its registered office at Village Somalheri/ Lehli, P.O. Dappar, Tehsil Derabassi, Distt.S.A.S Nagar, Mohali (Ph.)- 140506 to transact the ordinary and special business mentioned in the notice convening the said AGM Annual Report for FY 2020-21 along with Notice of said AGM and the explanatory statemen under section 102 of the Companies Act, 2013 (Act) in respect of special business have been couriered/posted/e-mailed to the members individually at their registered address/e-mail lds. Th dispatch of Annual Report along with Notice of AGM has been completed on September 6 2021. The same is also available on the Company's website at www.sswlindia.com, websites o stock exchanges viz BSE Ltd. at www.bseindia.com and NSE Ltd. at www.nseindia.com Further, Notice of the AGM is available on the website of Link Intime India Private Limited (LIIPL at https://instavote.linkintime.co.in, the agency engaged for providing remote e-voting facility at

Further notice is given that pursuant to Section 91 of the Act read with relevant rules framed thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations), the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, September 24, 2021 to Thursday September 30, 2021 (both days inclusive), for the purpose of AGM and for determining the entitlement of the shareholders to the final dividend for FY 2020-21.

As per Income Tax Act, 1961 amended vide Finance Act, 2020, mandates that dividend (s) paid or distributed by a company after 01.04.2020 shall be taxable in the hands of the shareholders. The Company shall, therefore, be required to deduct TDS at the time of payment of dividend at the applicable tax rates. The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by them and accepted by the Company. The shareholders are requested to submit signed documents/declarations in accordance with applicable provisions of Income Tax Act, 1961 at ssl ssg@glide.net.in. For more details, please refer Note no. 6 mentioned in the Notice of the AGM.

In compliance with Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and Section 108 of the Ac read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended from time to time, the Company is pleased to provide its members, the facility to exercise their right to vote on resolutions mentioned in the AGM Notice by electronic means through "Remote e-voting" services, provided by LIIPL through their e-voting website "InstaVOTE".

The remote e-voting shall be open from September 27, 2021 from 9.00 a.m. (IST) to September 2021 from 9.00 a.m. (IST) to September 27, 2021 from 9.00 a.m. 29, 2021 to 5.00 p.m. (IST) (both days inclusive). The remote e-voting shall not be permitted beyond the said time and the remote e-voting module shall be disabled by LIIPL for voting

The Members, whose names will appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners of the close of the day on Thursday, September 23, 2021 (cut-off date), are only entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM on the Resolutions set forth in Notice of AGM, Please read the instructions given under note 17 in the Notice of the AGM before exercising the vote.

The facility for voting through ballot/polling paper shall be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the meeting through ballot/polling paper. The shareho i.e. remote e-voting or physical polling at the meeting. In case of voting by both the modes, vote casted through remote-e-voting will be considered final and voting through physical ballot will not be considered. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

Any person who becomes member of the Company after despatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date, may follow the same instructions as mentioned in the notice of AGM for remote e-voting. If the member is already registered with InstaVOTE for remote e-voting, he can use his/her existing User ID and password for casting the vote through remote e-votino.

Members who have not undated their e-mail addresses with the Company are requested to update their email addresses are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder,

scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by sending email to Company/RTA at ssl ssg@glide.net.in / delhi@linkintime.co.in

(ii) In case shares are held in demat mode, please provide DPID + Client ID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by sending email to Company/RTA at ssl ssg@glide.net.in / delhi@linkintime.co.in.

Notice of the said AGM and Remote e-voting instructions are available on the Company's website, on the website of LIIPL and also on the stock exchange website viz BSE and NSE. In case the shareholders have any queries or issues regarding remote e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call at-Tel: 022 - 49186000.

For STEEL STRIPS WHEELS LIMITED

Place: Chandigarh

(Shaman Jindal) CGM-cum-Company Secretary

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

AMCO INDIA LIMITED

CIN: L74899DL1987PLC029035

Regd. Office: 10795, Shop No. GF-7, Jhandewalan Road, Rexine Bazaar, Nabi Karim, New Delhi-110055 Corporate Office: C 53-54, Sector 57, Noida, U.P 201301 Ph.: 0120-4601500

Email: amco.india@ymail.com; Website: www.amcoindialimited.com PUBLIC NOTICE FOR THE THIRTY-FOURTH (347H) ANNUAL GENERAL MEETING

This is to inform that in view of the outbreak of the Covid-19 pandemic, the 34th Annual General Meeting ('AGM') of Amco India Limited (the 'Company') will be convened through Video Conference 'VC')/other audio visual means ('OAVM') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with General Circular dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 & 13th January, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular dated 12th May, 2020 & 15th January, 2021 issued by the Securities and Exchange

The 34th Annual General Meeting of the members of the Company is scheduled to be held on Thursday, 30th September, 2521 at 01:00 P.M (IST) through VC / OAVM to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM. The e-copy of 34th Annual Report of the Company for the Financial Year 2020-21 along with the

Notice of the AGM, Financial Statements and other documents will be available on the website of the Company at www.amcoindialimited.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. Additionally, the Notice of AGM will also be available on the website of the stock exchange on which the securities of the Company are listed i.e. at www.bseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC / OAVM facility only, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. Accordingly, please note that

no provision has been made to attend and participate in the 34th AGM of the Company in person to ensure compliance with the directives issued by the government authorities with respect to Covid-19. Members attending the Meeting through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 will be sent electronically only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent

'Registrar') / Depository Participants ('DPs'). Members who have not yet registered their email addresses

are requested to follow the process mentioned below, for registering their email addresses to receive all the correspondence including Annual report from the Company Physical Holding | Send request to the company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) for

registering email address & bank account details: BEETALFinancial & Computer Services Private Limited BEETAL HOUSE, 3rd Floor,

99. Madangir, Behind LSC, New Delhi - 110062 Ph. 011-29961281-283. 26051061, 26051064. Email: investor@beetalfinancial.com Demat Holding Demat Holding Please contact your DP and register your email address & bank

account details as per the process advised by your DP The Company is pleased to provide remote e-voting facility provided by the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company shall also provide the facility of e-voting system during he AGM. The detailed procedure for remote e-voting or e-voting system during the AGM will be

royided in the Notice. The members who are holding shares in physical form or who have not

registered their email addresses with the company can refer the procedure provided in the AGM

Notice to cast their vote through remote e-voting/e-voting system during the AGM. For Amco India Limited

Surender Kumar Gupta

Managing Director

DIN: 00026609

Place: Noida, U.P. Date: 06.09.2021

ANKA INDIA LIMITED

Regd. Off: 41 Shivalik Building Near Saraswati Hospital/ Telephone Exchange Old Delhi Road Gurgaon-122001; CIN: L74900HR1994PLC033268: Email id: response@ankaindia.com;

Phone no: 9820069933; website: www.ankaindia.com

NOTICE OF THE 27"ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Members are hereby informed that dispatch of the Notice of the 27th Annual General Meeting ('AGM') of the Company convened for 30" September, 2021at 4:30 P.M. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM") and the Report and Accounts for the financial year ended 31"March, 2021 to the Members of the Company has been completed on 07" September, 2021, in conformity with the regulatory requirements. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Resolutions for consideration at the 27° AGM will be transacted through remote a-voting (facility to cast vote prior to the AGM) and also e-voting during the AGM, for which purpose the services of Central Depository Services (India) Limited ('CSDL') have been engaged by the Company. Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the

Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date I.e. 23" September, 2021 will be entitled to cast their votes by remote e-voting or a-voting during the AGM. A person who is not a Member on the cut-off date should accordingly treat the Notice of the AGM as for information purposes only. Remote a-voting will commence at 9.00 a.m. on 27" September, 2021 and will end at 5.00

p.m. on 29" September, 2021, when remote a-voting will be blocked by CDSL. Members. who cast their votes by remote a-voting, may attend the AGM but will not be entitled to cast Persons who become Members of the Company after sending of the Notice of the AGM but

on or before the cut-off date may write to CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or to the Company at response@ankaindia.com requesting for user ID and password for remote a-voting or e-voting during the AGM. Members already registered with CDSL for remote avoting should however use their existing user ID and password for this purpose.

In case of any query/ grievance, Members may contact Mr. Anu Sharma, Company Secretary at 41 Shivalik Building Near Saraswati Hospital/ Telephone Exchange Old Delhi Road Gurgaon-122001, Email ID response@ankaindia.com. The Annual Report including the AGM notice, is available on the Company's website

www.ankaindia.com and available for inspection by the members at the Registered & Corporate Office of the Company during business hours on all working days (Except Saturdays and Sundays) between 9:00 A.M. to 5:30 P.M., till the conclusion of the AGM. A copy of the Notice is also available on CDSL's website at www.evotingindia.com. The result of e-voting shall be announced on or after 30° September, 2021but not later than

48 Hours from the conclusion of AGM. The e-voting result and the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website www.ankaindia.com and CDSL'swebsite www.evotingindia.com for the purpose of informing the members, besides being communicated to BSE Limited, where the shares of the Company are listed. Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation

42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday23"Day of September, 2021 to Wednesday 30" day of September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company. FOR ANKA INDIA LTD

ANU SHARMA

PLACE: GURGAON DATED: 07.09.2021

Company Secretary



Ho: Bengaluru Branch Office Malur SME Phone No. 08151-233791, 232861

E-Mail: cb2477@canarabank.com DEMAND NOTICE [SECTION 13(2)] TO BORROWER/ GUARANTOR/MORTGAGOR

NOTICE ISSUED UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002

We, Canara Bank, Malur SME Branch had issued Demand Notices under Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Security Interest Act 2002 by Registered Post with Acknowledgment Due (RPAD) to the addresses furnished to the Bank as mentioned below. Since the notice has not been acknowledgement returned due to nonavailability of addressees at the said addresses / due to evading of service of the notices sent by RPAD, notice could not be served. Further, Bank had served the said demand notices by affixture at the addresses given. The contents of the said notices are mentioned herein below

Name And Address Of The Borrower/co-borrower/mortgagor/guarantor: M/s Shivhar Precision (P) Ltd (Borrower), #190, road No 4a Phase-3. #190, road No 4a Phase-3, Malur-563130, 2, Sri Ravi Sarda (Guarantor), 401/1 Housefed Complex, E Block Shaheed Bhagat Singh Nagar, Pakhawal Road. Ludhiana, Punjab-141013, 3.Smt Sangeeta Sarda (Guarantor), Wo Ravi Sarda. 401/1 Housefed Complex, E Block Shaheed Bhagat Singh Nagar, Pakhawal Road Ludhiana, Punjab-141013, 4.Smt Sheela Sarda (Guarantor), 401/1 Housefed Complex, E Block Shaheed Bhagat Singh Nagar, Pakhawal Road,

Ludhiana, Punjab-141013.							
Nature and type of facility	Date of Sanction	Amount	Rate of Interest	Liability with Interest as on Date			
OCC/ODBD 2477261001048	28/06/2014	Rs. 70,00,000.00	9.30%	Rs. 78,40,530.42			
TERMICAN	ATHEORYSON CARS	De	NOSTOPOW D	100 - 011040-200 OHOUSE			

1	ERM LOAN	13/08/2015	Rs.	40.400	7 03 22/200-00	
	2477766000017	13/08/2015	85,00,000.00	13.40%	T R8.750,80,096.00	
	VEHICLE LOAN 2477603001246	07/12/2017	Rs. 9,80,000.00	8.30%	Rs. 6,16,830.00	
	FITL 2477710000003	01/09/2020	Rs. 3,46,000.00	9.30%	Rs. 2,10,848.72	

Amount Outstanding: Rs.1,37,48,305.14 (Rupees One Crore Thirty Seven Lakhs Forty Eight Thousand Three hundred Five and Fourteen Paisa only) together with further interest and incidental expenses and costs.

NPA Date: 01/03/2021 Demand Notice Date: 01.09.2021 Details of Security assets: All that piece of land known as Plot No 6 B in the Malur 4th Phase Industrial Area, Malur, Kolar Dist, Karnataka 563130, Comprised in Sy.No. 131/1 within village limits of H-Hoskote 2000 Sqmtrs, East by : Plot No 6-I, West by : KIADB ROAD, North by : Plot No 6-A, South by : Plot No 6-C, Name of Title holder M/S SHIVHAR PRECISION (P) LTD.

You are here by called upon to pay Canara Bank, within a period of 60 days from the date of publication of this notice, the respective amount mentioned here above, failing which Canara Bank will take necessary action under the provisions of the said Act, against the secured assets including taking possession of the secured assets of the Borrowers and the Guarantors. The powers available to Canara Bank under the Act include (i) power to take possession of the secured assets of the Borrower / Guarantors Mortgager including the rights to transfer by way of lease, assignment or sale for realising secured assets and any transfer of secured assets by Canara Bank shall vest in the transferee rights in or in relation to, the secured asset transferred as if the transfer has been made by you. In terms of the provisions of section 13(13) of the said Act, you are hereby prohibited from transferring, either by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of your business), any of the secured assets as referred to in the Demand Notice affixed and also Hypothecated / Mortgaged to the bank without prior written consent of the Bank. The notice is issued in terms of Section (13)2 of the said Act.

Sd/- Authorised Officer Date: 06.09.2021 Canara Bank Place: Bangalore





Date: 06-09-2021

Housing & Urban Development Corporation Ltd. (HUDCO) (A Govt. of India Enterprise) An ISO 9001:2015 Certified Company

HUDCO Bhawan, Vidyut Marg, Jyoti Nagar, Jaipur-302005 E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Properties

Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (1) M/s SARGA Udaipur Hotels Resorts Pvt. Ltd. (Erstwhile M/s Shristi Udaipur Hotels & Resorts Pvt. Ltd.) Add:- F-13, Kailash Colony, New Delh 110048, Director (2) Sh. Dhananjay Kumar Sarkar S/o Sh. N.R. Sarkar, Add:- D - 2, 5th Floor, Southern Park, Sake Place, Saket, New Delhi - 110017, Add:- 2/218 DR Ambedkar Nagar Sector - 5, New Delhi, Director (3) Sh. Vikran Kasera, Add:- House No. 7-B, Third Floor, Deodar Street, Ballygunge Circus Avenue, Kolkata - 700019, Guarantor (Sh. Sujit Kanoria S/o Sh. Hari Prasad Kanoria. R/o H - 7. Vittal Kuni. Ansal Villa. Satbari. New Delhi - 110074. thi the below described immovable property mortgaged to the Secured Creditor, the possession of which has been take by the Authorised officer of HUDCO, the Secured Creditor, will sold on "As is where is" "As is what is", and "whatev there is" basis on 21.10.2021 (Thursday) for recovery of Term Loan Rs. 19,44,92,417/- (Rupees Nineteen Crore For Four Lakh, Ninety Two Thousand Four Hundred Seventeen Only) as on 31,03,2021 plus further interest, cost, charge & other expenses etc. there on due to the above secured creditor from the above Borrower, Directors & Guarantors. ovable property to be sold EMD to be Depos

and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement

20.10.2021 All the immovable properties piece and parcel of sub-Lease hold rights of land situated at Village Goverdhan 30,06,00,000.00 3,00,60,000.00 upto 04:00 P.M. Vilas, Tehsil Girwa, District Udaipur, Rajasthan, Bearin Khasra No. 9, 27, 1063/9, 53, 56, 57, 58,59, 60, 1064/5 1065/54. Measuring 2.41.731.50 Sq. ft. ther encumbrance charged of any Bank/Financial institution not known to u For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided by HUDCO, the Secured Creditor' website www.tenderwizard.com/HUDCOEAUCTION prospective bidders may also contact for support over ema

Place: Jaipur Cc: For kind information only:(1) Sh. Om Prakash Dhabai S/o Tejram Dhabai,
R/o Nand Bhawan, NH-8 Govardhan Vilas, Udaipur 313004

Sh. Vijay Dhabai Legal heir of Late Sh. Narayan Lal Dhabai, (Son) R/o Nand Bhawan, NH-8 Govardhan Vilas, Udaipur 313004.

Smt. Bhanwari Devi Dhabai Legal heir of Late Sh. Narayan Lal Dhabai, (Widow) B/o Nand Bhawan NH-8 Govardhan Vilas, Udainur 313004

h d l8 8RLY(17)

AN ISO 9001: 2008 CERTIFIED COMPANY) CIN No.: L45201DL1983PLCO17225

Regd. Office: 118, Upper First Floor, Prakash Deep Building, 7, Tolstoy Marg, New Delhi-110 001 Ph.: 23353051, 23353052, Fax: 91-11-23310639, 23359550, E-mail: info@ansalabl.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS (For transfer of shares to the Investor Education and Protection Fund Authority)

This Notice is Published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs effective from September 7, 2016 and as amended from time to time by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as "IEPF Rules").

Pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 6 of the IEPF Rules, all shares in respect of which dividends have remained unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years as provided under Section 124(5) of Companies Act, 2013, are required to be transferred by the Company to IEPF authority.

A list of shareholders who have not claimed their dividends for the last seven consecutive years i.e. financial year 2013-14 to 2017-2018 and whose shares are therefore liable for transfer to IEPF authority has been posted on the website of the Company at www.ansalabl.com alongwith their respective folio numbers/DPID, Client ID details. Shareholders are requested to refer to the website to verify the details of unencashed dividends and shares liable to be transferred to the IEPF Authority.

In this regard, the Company has sent individual communications to the concerned shareholders at their last known addresses available with the

The Shareholders may further note that the details uploaded by he Company on its website shall be deemed adequate notice by the Company for the purpose of transfer of physical shares (by way of following the procedure for transmission of equity shares) to the IEPF authority pursuant to the IEPF Rules.

Notice is hereby given that in the absence of receipt of a valid request form alongwith necessary documents from the shareholders by 30th September, 2021, the Company shall with a view to comply with the requirements of the IEPF Rules, transfer the shares to the IEPF Authority by the due date as per the procedure stipulated in the Rules without any further notice to the Shareholders. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of

unclaimed dividend amounts and shares transferred to the IEPF authority

pursuant to the IEPF Rules. Please also note that all subsequent corporate benefits accruing on such shareholding shall also be credited in favour of the EPF Authority. The concerned shareholders may note that, upon such transfer, they can claim their said shares alongwith dividend(s) by making an application in Form IEPF-5 to the IEPF Authority as prescribed under the Rules and the same is available at the IEPF website www.iepf.gov.in. For further information, Shareholders are requested to contact Mr. Sunil

Mehra, Addl.GM (Secretarial), M/s Ansal Buildwell Limited, 118, UFF, Prakashdeep, 7, Tolstoy Marg, New Delhi-110 001, Telephone No. 011-23353051, 52, e-mail:cs@ansalabl.com by quoting the reference Folio No./dematAccount No. By order of the Board of Directors

For Ansal Buildwell Limited (Ashok Babu)

Place: New Delhi Date: 03.09.2021

Sr.V.P. & Company Secretary FCS NO.: 2328

GENERIC ENGINEERING CONSTRUCTION AND PROJECTS LIMITED Regd Off.: 201 & 202, Fitwell House, 2rd Floor, Opp Home-Town,

LBS Road, Vikhroli (West), Mumbai - 400083 CIN: L45100MH1994PLC082540 Website: www.gecpl.com, Email Id: geninfo@gecpl.com Phone No: 022-25780272

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, this September 29, 2021 at 11,30 A.M. through Video Conferencing/other Audio Visual means in compliance with all the applicable provision of The Companies Act, 2013 and rules made thereunder and Securities Exchange Board of India("SEBI")(Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with circular no. 14/2020 April 8,2020; no 17/2020 dated April 13,2020 and no. 20/2020 dated May 5,2020 and 02/2021 dated January 13, 2021 and SEBI circular dated January 15, 2021 and July 23, 2021 and other Circular allowed conducting AGM through VC or OAVM without the physical presence of Members at a common venue.

The notice of the AGM along with the Annual Report for FY 2020-21 is sent to all those members whose e-mail addresses are registered with the Company, the Depositories or Satellite Corporate Services Private Limited, the Registrar & Transfer Agent, Members may also note that the notice of the AGM and the Annual Report is available on the Company's website at www.gecpl.com, website of the Stock Exchanges i.e BSE Limited at www.bseindia.com and NSE at https://www.nseindia.com/ and the e voting service provider i.e. Central Depository Services (India) Limited at https:// <u>www.evotingindia.com/</u>. Members may attend the AGM through VC/OAVM facility only instructions of which are provided in the notice of the AGM. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Members are requested to contact the Depository Participants in case of shares held in electronic form and Satellite Corporate Services Private Limited in case of shares eld in physical form for validating/updating their e-mail address and mobile number including address and bank details, or update the same along with uploading relevant documents at info@satellitecorporate.com.

In compliance to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Company is providing remote evoting facility to all its Members to enable them to cast their vote on all matters listed in the said Notice by electronic means. The details regarding the remote e-voting facility is provided

Cut-off date for determining Thursday, September 23, 2021 the Members entitled to vote Commencement of remote Sunday, September 26, 2021 (09.00 AM) e-voting period Tuesday, September 28, 2021 (05.00 PM) End of remote e-voting period The remote e-voting will be disabled by CDSL after 5.00 P.M. on Tuesday, September 28, 2021 and the Members shall not be allowed to vote beyond the said date and time

or through e-voting during the AGM. The Company shall also provide e-voting facility during the AGM for the Members attending the AGM through VC/OAVM, who have not cast their vote on resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so.

Persons whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of

Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e Thursday

September 23, 2021, shall be entitled to cast their vote either through remote e-voting

The Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again. Any person, who becomes a Member of the Company after completion of dispatch of the notice and hold share(s) as on cut-off date i.e. Thursday, September 23, 2021 may request for login ID and password at info@satellitecorporate.com o cs@gecpl.com. However, if the person is already registered with CDSL for e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote. The Register of Members and Share Transfer books of the Company shall remail

closed from Saturday, September 18, 2021 to Wednesday, September 29, 2021 (bot days inclusive) for the purpose of AGM and declaration of Dividend for FY 2020-21. The manner of remote e-voting for shareholders in dematerialized mode, physical mode and members who have not registered their e-mail addresses is well explained the notice of the AGM. FOR GENERIC ENGINEERING CONSTRUCTION AND PROJECTS LIMITED

Place: Mumbai

Date: September 7, 2021

Date: 07-09-2021 New Delhi

Ami Shah

Company Secretary

Place: Chandigarh

FORM A **PUBLIC ANNOUNCEMENT**

(Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF SRIJAN ARAVALI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

Name of Corporate Person SRIJAN ARAVALI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED Date of incorporation of Corporate Person 3rd January 2014 Ministry of Corporate Affairs, Authority under which Corporate Registrar of Companies, Delhi Person is incorporated /registered Corporate identity number / limited liability U72300DL2014PTC263025 identity number of Corporate Person 8F, Vandana Building, 11 Tolstoy Marg, Address of the registered Office and Principal office (if any) of Corporate Person | New Delhi- 110001 Liquidation commencement date of 06th September, 2021 Corporate Person Alok Chandra Singh Name, address, email address, telephone number and the registration number of G-10, Express Apartments, Sector 4. the Liquidator Vaishali, Ghaziabad-201010 Email: alok@alokchandra.com

Contact No.: 9810304842/0120-4549570 Reg No: IBBI/IPA-002/IP-N00381/2017-2018 / 11124 Last date for submission of claims 06th October, 2021 Notice is hereby given that SRIJAN ARAVALI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED has commenced voluntary liquidation on 06th September, 2021.

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders

Place: Ghaziabad

ALOK CHANDRA SINGH Liquidator for Srijan Aravali Technologies Private Limited Registration No.: IBBI/IPA-002/IP-N00381/2017-2018 / 11124

BCC fuba Vivited Circuits

BCC FUBA INDIA LIMITED

CIN:L51395HP1985PLC012209 Website:www.bccfuba.com

Regd. Office: 4 KM Swarghat Road, Nalagarh 174101, Distt Solan, Himachal Pradesh Tel. No. :91-11-43656584, 49287223, Email id : delhi@bccfuba.com NOTICE OF 35™ ANNUAL GENERAL MEETING.

REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

The Annual Report containing, inter alia, the notice convening the AGM setting out the business to be transacted there at, Balance Sheet, Statement of Profit & Loss for the financial year ending as on 31" March, 2021, the Auditor's Report thereon and the report of the Board of Directors have been sent to the members whose email addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent(RTA). The aforesaid documents

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is providing to its members, facility to exercise their vote on resolutions as set out in the Notice. The Company has engaged the services of Link ntime India Private Limited (LIIPL) for providing remote e-voting facility. The facility of e-voting and are otherwise not barred from doing so, will be eligible to vote at the AGM. The

The remote e-voting period will commence on 9:00 A.M. on Monday, 27th September, 2021 and will end at 5.00 P.M. on Wednesday, 29th September, 2021. A person whose name appears in the Register of Members/Beneficial owners as on cut-off i.e. Thursday, 23th

The detailed procedure/instructions for remote e-voting and e-voting provided during the meeting are provided in the Notice of Annual General Meeting and members holding shares either in physical or demat form, as on the cut-off date may cast their vote electronically on the business set forth in the Notice of AGM. The members who have cast

The Board of Directors has appointed Mr. Naresh Samkaria, Partner of Samkaria & Associates, Practicing Chartered Accountant, to act as the Scrutinizer, to scrutinize the entire e-voting process and e-voting at AGM in a fair and transparent manner.

inclusive) for the purpose of this AGM. In case shareholders/ members have any queries regarding login, they may send an email

to instameet@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022-49186175. By Order of the Board

Date: 07.09.2021 Place: New Delhi

(DIN 06785065) Ind-Swift Laboratories Ltd.

E-Voting Instructions and Book Closure Information

Company will be held on Thursday, 30th September, 2021 at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses, as set out in the Notice of AGM.

14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 and Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars") and also SEBI vide circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, the Companies are allowed to hold AGM through VC/ OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with these MCA & SEBI Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (LODR) Regulations, 2015, the AGM of the Company will be held through VC / OAVM only. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM by following the instructions given in

Annual Report for financial year 2020-21 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories. Members are requested to kindly update their e-mail address with depository participants in case of holding shares in demat form. If holding shares in physical form, Members are requested to inform their email ID to the Company. In case of Member(s) who have not registered their email addresses with the Company/Depositories, are requested to please follow the below instructions to register their email address for obtaining Annual Report 2020-21 as well as login details for e-voting facility and joining

details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investor@indswiftlabs.com. Members holding shares in Demat mode, please provide Demat account

Members holding shares in Physical mode, please provide necessary

Card) to investor@indswiftlabs.com. Members may note that the Annual Report for financial year 2020-21 including the Notice of AGM will be available on the company's website www.indswiftlabs.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited

Members & Share Transfer Books of Company shall remain closed from 26t September, 2021 to 30th September, 2021 (both days inclusive) for purpos

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companie (Management and Administration) Rules, 2014 the Company is providing to its members facility to cast their vote by electronic means (e-voting) on all the resolution set forth in the notice of AGM. The e-voting period commences of Monday, 27th September, 2021 at 9:00 A.M (IST) and ends on Wednesda 29th September, 2021 at 5:00 P.M (IST). The e-voting module shall t disabled by CDSL thereafter. Please note that the shareholders who hold shares either in dematerialized or in physical form, as on cut off date (i.e. 23rd September, 2021), may cast their vote electronically.

In case any query/ grievance(s) connected with the electronic voting members may please refer the Frequently Asked Question (FAQ) and voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or the grievances can be addressed to the Director of the Company at the Registered Office of the Company or email id investor@indswiftlabs.com

The stakeholders of SRIJAN ARAVALI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 06th October, 2021, to the liquidator at the address mentioned

may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 06.09.2021

Authorised Office

Notice is hereby given that the 35° Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, the 30"day of September, 2021 at 10:00 A.M. through Video Conferencing (VC) in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013. and the Rules made thereunder, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circulars no. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8" April, 2020, 13" April, 2020, 5" May, 2020 respectively issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) to conduct the business as set forth in the Notice of the

are also available on the company's website at www.bccfuba.com and the website of the Stock exchange at www.bseindia.com.

voting through electronic means will also be available at the AGM and only those members who are present in the AGM and have not cast their vote on the resolutions through remote details and instructions for remote e-voting and voting at the AGM forms part of Notice

heir vote through remote e-voting, prior to the meeting can attend the AGM but are not entitled to cast their vote again. In case of any queries or issues regarding e-voting, the members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Insta vote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call us :- Tel : 022 - 49186000.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 24"September, 2021 to Thursday, 30"September, 2021 (both days

For BCC Fuba India Limited

Abhinav Bhardwaj Director

Ind-Swift CIN No.L24232CH1995PLC015553

Notice of 26th Annual General Meeting of the Company,

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting (AGM) of the In compliance with the Ministry of Corporate Affairs General Circular No.

In compliance with the aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the AGM through VC/OAVM:

details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar

www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable rule thereunder and Regulation 42 of Listing Regulations, the Register

For Ind-Swift Laboratories Ltd

Pardeep Verma AVP-Corp. Affairs & Co. Secy

In this regard, Members may note that: (i) Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as

(ii) the cut-off date for the purpose of determining shareholders for voting

vii) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Cut Off Date only

Date: 07.09.2021

financialen .epa.in

स्पेस इंक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लि0

पंजीकृत कार्यालयः पवनपुरी, मुरादनगर, गाजियाबाद–201206 (यू.पी.) CIN: L17100UP2016PLC084473 ई—मेलः spaceincubatrics@gmail.com, वेबसाइटः www.spaceincubatrics.com

दूरभाष:- 01232 - 261288

वार्षिक साधारण समा की सूचनाः

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्पेस इंक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लिमिटेड सदस्यों की 5वीं वार्षिक साधारण सभा बृहस्पतिवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2021 को मध्यान्ह 12:30 बजे पंजीकृत कार्यालय पवनपुरी, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद— 201206 (यू.पी.) पर, वार्षिक एजीएम के नोटिस दिनोंक 28 अगस्त 2021 में वर्णित सामान्य व विशेष कार्य को सम्पन्न करने के लिए होगी। एजीएम की बैठक की सूचना व्याख्यात्मक विवरण सहित एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट सेमेत पृथक रूप से इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा उन सभी सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है, जिनके ईमेल एड्रेस कम्पनी/डिपाजिटरी पार्टीसिपेंट/रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफरें एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। अन्य सभी सदस्यों को जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, उन्हें एजीएम नोटिस की प्रति भौतिक रूप से स्वीकृत माध्यम द्वारा उनके पंजीकृत पतों पर भेजी जा चुकी है। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.spaceincubatrics.com और सीडीएसएल की वेबसाईट https://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के लिए कंपनी ने सेंटल डिपाजिटरी सिक्योरिटीज लि0 ('सीडीएसएल') के साथ व्यवस्था की है।

- इस संबंध में सदस्य कृपया ध्यान दें: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108, जिसे कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20, यथा संशोधित के साथ पठित एवं सेबी (एलओडीआर) रेगुलेशन 2015 के नियम 44 के अनुपालन में वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में वर्णित कार्यवाही को इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग से संपंन्न कराया जा सकता है। कंपनी को अपने सभी शेयर धारकों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराते हुए प्रसन्नता है।
- रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग एवं एजीएम स्थल पर वोटिंग हेत शेयर होल्डरों के निर्धारण हेतू कट-आफ तिथि बृहस्पतिवार, 23 सितम्बर 2021 है। जिन सदस्यों के पास कट-आफ तिथि की कागजी अथवा डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर हैं, वे सीडीएसएल के इलैक्ट्रोनिक वोटिंग सिस्टम, जो https://www.evotingindia.com है, पर एजीएम स्थल के अलावा अन्य स्थान से भी इलैक्ट्रानिक माध्यम से अथवा मतपत्र द्वारा एजीएम स्थल पर अपना वोट दे सकते हैं।
- (iii) रिमोट ई-वोटिंग 27 सितम्बर 2021 (सोमवार) को 10:00 बजे प्रातः प्रारम्भ होगी और 29 सितम्बर 2021 (बुधवार) को 5.00 बजे सायं पर समाप्त हो जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सीडीएसएल द्वारा २९ सितम्बर २०२१ (बुधवार) को ५.०० बजे सायं पर बंद कर दी जाएगी और उपरोक्त तिथि व समय के उपरांत वोटिंग की छूट नहीं होगी। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार अपनी वोट डाल देने के
- बाद सदस्य को उसमें बदलाव का अधिकार नहीं होगा। (iv) कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना प्रेषित कर दिए जाने के पश्चात शेयर प्राप्त करके कंपनी का शेयरधारक बनता है एवं कट—आफ तिथि 23 सितम्बर, 2021 (बृहस्पतिवार) को शेयरधारक हो, वे ई-वोटिंग के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से या सीडीएसएल से निम्न संपर्क से हासिल कर सकते हैं: दूरभाष संख्याः 022-23058738 व 022-23058542-43, ई-मेल आई डी: helpdesk.evoting@cdslindia.com, beetal@beetalfinancial.com
- (v) मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा एजीएम स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी (vi) कोई भी सदस्य अपने मताधिकार का रिमोट ई-वोटिंग द्वारा इस्तेमाल करने के
- उपरांत भी एजीएम में शामिल हो सकता है। लेकिन उसे एजीएम में अपना वोट पुनः डालने की छूट नहीं होगी। (vii) केवल वही सदस्य एजीएम स्थल पर मतपत्र द्वारा अथवा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने की सविधा का लाभ लेने के अधिकारी होंगे जिनके नाम कट-आफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपाजिटरीज द्वारा रखे जाने वाले

बेनिफिसियल आनर्स के रजिस्टर में दर्ज होंगे

कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के नोटिस को https://www.spaceincubatrics. com/wp-content/uploads/2021/09/Notice_AGM_Space_2021.pdf से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

किसी भी जानकारी के लिए सदस्य एफएक्यू (FAQ) और सदस्यों के ई-वोटिंग यूजर मैनुअल को देख सकते हैं। जो www.evotingindia.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध है। रिमोर्ट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य टोलफ्री नं. 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं अथवा श्री आनन्द तिरोडकर, श्री अंकित बांदीवाडेकर, सीडीएसएल, ट्रेड वर्ल्ड, फिरोज जीजीबाई टॉवर्स, 17वां तल दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001 से अधिकृत ई-मेल आईडीजः helpdesk.evoting@cdslindia.com या दूरभाष संख्याः (022) 23058615, (022) 23058634 फैक्स: (022) 23002043 पर संपर्क कर सकते हैं।

वार्षिक साधारण सभा उपरोक्त सभा स्थल पर कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा जारी एसओपी/एडवाईजरी/नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग नियमों व अन्य सुरक्षा प्रोटोकाल मसलन फेस मास्क, हैंड सेनेटाईजेशन आदि का कड़ाई से पालन करते हुए होगी। वास्ते-स्पेस इंक्युबैद्रिक्स टैक्नालॉजीस लि0

ह0/- (मेघा वशिष्ठ) तिथिः 06 सितम्बर, 2021

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी स्थानः मुरादनगर स.सं.: ए57544

AIR FORCE STATION ISSAPUR, NEW DELHI-110073

निविदा सूचना

01 अक्तूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 तक नीचे वर्णित रेजिमेंटल दुकानों के संचालन के लिये वायु सेना स्टेशन इस्सापुर, नई दिल्ली –७३ द्वारा आर्थिक रूप से सुदृढ एवं व्यापारिक पुष्टभूमि वाले व्यक्ति 🖊 प्रतिष्ठान से मृहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वायु सेना स्टेशन इस्सापुर की एस आई कार्यालय मे 08 **सितंबर 21 से 13 सितंबर 2021 को रु. 100** /— अप्रतिदेय के नगद भगतान पर प्राप्त की जा सकती है।धरोहर राशि के रूप में एस आई कार्यालय में रु. 1000 / — (वापसी योग्य) की राशि जमा की जाएगी। धरोहर राशि की रिसीप्ट की छायापति के साथ सभी तरह से पूर्ण निविदा प्रपत्र अधिकतम 20 सितंबर 2021 को 10.00 बजे तक मुख्य गारद कक्ष वायु सेना स्टेशन इस्सापुर में रखी गई निविदा पेटी में जमा की जाएगी। निविदा को 20 सितंबर 2021 को 12.00 बजे सभी आवेदक वेंडर के सामने खोली जाएगी । स्टेशन कमांडर वायु सेना स्टेशन रजोकरी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदा को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है । सभी युद्ध 🗸 विधवा / विक्लांग सैनिक / पूर्ववर्ति सैनिक या उनकी पत्नी / पूर्ववर्ति सैनिक की विधवा को दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।

दुकानों की सूची

1) सब्जी की दुकान 2) नाई की दुकान

3) किराना की दुकान 4) जलपान गृह

एमको इंडिया लिमिटेड

CIN: L74899DL1987PLC029035 पंजीकृत कार्यालय : 10795, शॉप नं.-7 जीएफ, झंडेवालान रोड, रेक्सीन बाजार, नबी करीम, नई दिल्ली-110055 कॉर्पोरेट कार्यालय: सी-53-54, सैक्टर-57, नोएडा-201301,

फोन नं : 0120-4601500

ई-मेल : amco.india@ymail.com वेबसाइट : www.amcoindialimited.com

चौतीसवीं (34वीं) वार्षिक आम बैठक के लिए सार्वजनिक सूचना यह सुचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए कम्पनी अधिनियम, 2013 के लाग् प्राक्पानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, दिनांक 5 मई, 2020 एवं दिनांक 13 जनवरी, 2021 ("एमसीए परिपत्र) और भारतीय प्रतिमृति तथा विनिमय बोर्ड हारा जारी किये गये परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 एवं 15 जनवरी, 2021 ("रोबी परिपत्र") के अनुपालन में एमको इंडिया लिमिटेड ("कम्पनी") की 34वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") विदियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑढियो विदियो माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की

कम्पनी के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक, एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बृहस्पतिवार, 30 सितम्बर, 2021 को दोप. 1.00 बजे (आईएसटी) आयोजित की

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कम्पनी की 34वीं वार्षिक रिपोर्ट की ई कोंपी, एजीएम की सूचना, वितीय विवरण तथा अन्य दस्तावेज के साथ कम्पनी की वेबसाइट www.amcoindialimited.com और सीढीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, एजीएम की सूचना स्टॉक एक्सचेंज जहां कम्पनी की प्रतिभृतियां सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

सदस्यगण केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं जिसका विवरण बैठक की सूचना में कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तदनुसार, कृपया नोट करें कि कोविड–19 महामारी को देखते हुए सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी की 34वीं एजीएम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने एवं भाग लेने का कोई प्रावधान नहीं है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजन हेतु की जाएगी। एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिकली मेजी जाएगी जिनके ई–मेल पते कम्पनी / रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ("रजिस्ट्रार") / डिपॉजिटरी प्रतिमागी (डीपी) के पास पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे कम्पनी से वार्षिक रिपोर्ट सहित सभी पत्राचार प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते को पंजीकृत कराने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन

मीतिक धारिता अपना अनुरोध पत्र कम्पनी के रजिस्ट्रार एंड शेवर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) ई मेल पता और बैक खाता विवरण दर्ज करने के लिए

बीटल फाइनेंशियल एंढ कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरा तल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली—110062 को भेजें। फोन : 011-29961281-283, 26051061, 26051064 ई-मेल : investor@beetalfinancial.com

ठिमेट घारिता | कृपया अपने ढीपी से सम्पर्क करें और आपके ढीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना

ई-मेल पता एवं बैंक खाता विवरण पंजीकृत कराएं । कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्घारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने के लिए अपने सभी सदस्यों को सेन्ट्रल ढिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा, कम्पनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। रिमोट ई—वोटिंग और एजीएम के दौरान ई—वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी जाएगी। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण या जिन्होंने अपना ई—मेल पता कम्पनी के पास पंजीकृत नहीं कराया है, वे रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के लिए एजीएम की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन करें।

कृते एमको इंडिया लिमिटेड हस्ता./-सुरेन्दर कुमार गुप्ता प्रबंध निदेशक ढीआईएन : 00026609

सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN - L17111UP1988PLC009594 पंजीकृत कार्यालयः पवनपुरी, मुरादनगर, गाजियाबाद-201206 (यू.पी.) ई—मेलः sybly@rediffmail.com, info@sybly.com, वेबसाइटः www.sybly.com संपर्क सन्त:- 01232 - 261521

वार्षिक साधारण समा की सूचनाः

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की 33वीं वार्षिक साधारण सभा बृहस्पतिवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2021 को पूर्वान्ह 11:30 बजे पंजीकृत कार्यालय पर्वनपुरी, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद–201206 (यू.पी.) पर वार्षिक एजीएम के नोटिस दिनाँक 28 अगस्त 2021 में वर्णित सामान्य व विशेष कार्य को सम्पन्न करने के लिए होगी। एजीएम की बैठक की सूचना व्याख्यात्मक विवरण सहित एवं 31 मार्च 2021 को संमाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट समेत पृथक रूप से इलैक्टानिक माध्यम द्वारा उन सभी सदस्यों को प्रेषित की जा चकी है, जिनके ईमेल एड्रेस कम्पनी/डिपाजिटरी पार्टीसिपेंट/रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। अन्य सभी सदस्यों को जिन्होंने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं. ँ उन्हें एजीएम नोटिस की प्रति भौतिक रूप से स्वीकृत माध्यम द्वारा उनके पंजीकृत पतों पर भेजी जा चुकी है। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट (www.sybly.com) और सीडीएसएल की वेबसाईट https://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। र्ड-वोटिंगः

रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के लिए कंपनी ने सेंट्रल डिपाजिटरी सिक्योरिटीज लि0 ('सीडीएसएल') के साथ व्यवस्था की है। इस संबंध में सदस्य कृपया ध्यान दें:

- (i) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108, जिसे कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20, यथा संशोधित के साथ पठित एवं सेबी (एलओडीआर) रेगुलेशन 2015 के नियम 44 के अनुपालन में वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में वर्णित कार्यवाही को इलैक्टानिक माध्यमों द्वारा वोटिंग से संपंन्न कराया जा सकता है। कंपनी को अपने सभी शेयर धारकों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध
- रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से बोटिंग एवं एजीएम स्थल पर बोटिंग हेत शेयर होल्डरों के निर्धारण हेत् कट-आफ तिथि बृहस्पतिवार, 23 सितम्बर 2021 है। जिन सदस्यों के पास कट-आफ तिथि की कागजी अथवा डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर हैं, वे सीडीएसएल के इलैक्टोनिक वोटिंग सिस्टम, जो https://www.evotingindia.com है, पर एजीएम स्थल के अलावा अन्य स्थान से भी इलैक्टानिक माध्यम से अथवा मतपत्र द्वारा एजीएम स्थल पर
- रिमोट ई-वोटिंग 27 सितम्बर 2021 (सोमवार) को 10:00 बजे प्रातः प्रारम्भ होगी और 29 सितम्बर 2021 (बुधवार) को 5.00 बजे सायं पर समाप्त हो जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सीडीएसएल द्वारा २९ सितम्बर २०२१ (बुधवार) को ५.०० बजे सायं पर बंद कर दी जाएगी और उपरोक्त तिथि व समय के उपरांत वोटिंग की छट नहीं होगी। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार अपनी वोट डाल देने के बाद सदस्य को उसमें बदलाव का अधिकार नहीं होगा।
- (iv) कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना प्रेषित कर दिए जाने के पश्चात शेयर प्राप्त करके कंपनी का शेयरधारक बनता है एवं कट-आफ तिथि 23 सितम्बर, 2021 (बृहस्पतिवार) को शेयरधारक हो, वे ई—वोटिंग के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से या सीडीएसएल से निम्न संपर्क से हासिल कर सकते हैं: दरभाष संख्याः 022-23058738 व 022-23058542-43, ई--मेल आई डी: helpdesk.evoting@cdslindia.com, beetal@beetalfinancial.com
- (v) मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा एजीएम स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- (vi) कोई भी सदस्य अपने मताधिकार का रिमोट ई—वोटिंग द्वारा इस्तेमाल करने के उपरांत भी एजीएम में शामिल हो सकता है। लेकिन उसे एजीएम में अपना वोट पुनः डालने की छूट नहीं होगी।
- (vii) केवल वही सदस्य एजीएम स्थल पर मतपत्र द्वारा अथवा रिमोट ई—वोटिंग द्वारा मतदान करने की सुविधा का लाभ लेने के अधिकारी होंगे जिनके नाम कट-आफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपाजिटरीज द्वारा रखे जाने वाले बेनिफिसियल आनर्स के रजिस्टर में दर्ज होंगे।

कंपनी की वार्षिक साधारण समा के नोटिस को http://www.sybly.com/wpcontent/uploads/2021/09/Notice_AGM_Sybly_2021.pdf से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

किसी भी जानकारी के लिए सदस्य एफएक्यू (FAQ) और सदस्यों के ई-वोटिंग यूजर मैनुअल को देख सकते हैं। जो www.evotingindia.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध है। रिमोर्ट ई—वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य टोलफ्री नं. 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं अथवा श्री आनन्द तिरोडकर, श्री अंकित बांदीवाडेकर, सीडीएसएल, ट्रेड वर्ल्ड, फिरोज जीजीबाई टॉवर्स, 17वां तल दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001 से अधिकृत ई-मेल आईडीजः helpdesk.evoting@cdslindia.com या दूरभाष संख्याः (022) 23058615, (022) 23058634 फैक्स: (022) 23002043 पर संपर्क कर सकते हैं। वार्षिक साधारण सभा उपरोक्त सभा स्थल पर कोविड—19 महामारी के मद्देनजर

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा जारी एसओपी/एडवाईजरी/नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग नियमों व अन्य सुरक्षा प्रोटोकाल मसलन फेस मास्क, हैंड सेनेटाईजेशन आदि का कड़ाई से पालन करते हुए होगी। वास्ते-सिबली इंडस्टीज लिमिटेड

तिथिः 06 सितम्बर, 2021 स्थानः मुरादनगर

ह0/- (सागर अग्रवाल) कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी स.सं.: ए57936

केनरा बैंक Canara Bank 🚓

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्)

स्थान : नोएडा, यू.पी

दिनांक : 06.09.2021

जबकि, अद्योहरताक्षरी ने केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, (2002 का सख्याक 54) की धारा 13(12) तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुये एक मांग पत्र निम्न प्रत्येक खाते के आगे वर्णित दिनांको को (विवरण निम्न वर्णित है) सम्बन्धित ऋणियों तथा सम्पत्ति के मालिकों से भगतान की मांग करते हुये संबन्धित सुचना के अन्तर्गत राशि इस सुचना की प्राप्ति के 60 दिनों मे भगतान करने के लिये निममित किया। सम्बन्धित ऋणियों द्वारा राशि के भगतान में असफल होने पर ऋणियो को तथा जन सामान्य को यह सचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(4) तथा संपठित नियमों के नियम 8 व 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है। सम्बन्धित ऋणियों / मालिको को विशेषता तथा जन सामान्य को सुचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों में कोई व्यवहार न करे तथा उक्त सम्पत्तियों में किया गया कोई भी व्यवहार केनरा बैंक से संबन्धित राशि एवं ब्याज व अन्य खर्चों के अधीन होगा।

	का नाम	बंधककर्ता का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	उसके अनुसार बकाया राशि	तिथि एवं स्थान
1.	बहेड़ी जिला बरेली	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री राम भरोसे लाल	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल निर्मित आवासीय मकान संख्या 259, वार्ड नंबर 8, मीहल्ला कानून गोयान, बहेड़ी जिला बरेली, संपत्ति श्री नरेश कमार श्री राजीव श्री संजीव श्री अरुण सभी पत्र	24.05.2021	04.09.202
		बंधककर्ता)	संपत्ति श्री नरेश कुमार, श्री राजीव, श्री संजीव, श्री अरुण सभी पुत्र श्री राम भरोसे लाल के नाम, क्षेत्रफल 44.05 वर्गमीटर, सीमायें:-उत्तर: सुशील चंद्र का मकान, दक्षिण: राजू कश्यप का मकान, पूर्व: रास्ता, पश्चिम: मनोज जौहरी का मकान।	+ ब्याज व अन्य	46.01
दिनांक:- 06.09.2021				प्राधिकृत अधि	गरी



फीनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड सीआईएन: L74899DL1987PLC030092

पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, गोपाला टॉवर 25, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008 दुरभाष :(91-11) 2574 7696, 2575 1934/35/36 फैक्स :(91-11) 2575 1937/38 ई-मेल: narendermakkar@yahoo.com, वेबसाइट:-www.phoenixindia.com

34वीं वार्षिक आमसभा की सूचना

एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 34वीं वार्षिक आम सभा से संबंधित फाइनांसियल एक्सप्रैस (अंग्रेजी) तथा जनसत्ता (हिन्दी) दिल्ली अंक तिथि 02.09.2021 को प्रकाशित हमारी सूचना के अधिक्रम में एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि फीनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों की (''एजीएम'') बुधवार 29.09.2021 को 4.00 बजे अप. में विडियो कॉन्फ्रेसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो माध्यमों ('ओएवीएम') सुविधा द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। फीनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की आमंत्रण स्चना, ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग) की प्रक्रिया एवं निर्देशों तथा एफवाई-21 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रानिक प्रति 6.9.2021 को उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स ('डीपी') के पास पंजीकृत हैं। सदस्यगण कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.phoenixindia.com तथा स्टॉक एक्सचैंजों की वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com से उक्त दस्तावेजों को डाउनलोड कर सकते हैं।

्एजीएम में शामिल होने, मतदान (रिमोट ई–वोटिंग आदि) की विस्तृत प्रक्रिया अधोलिखित लाइन्स पर एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट है:

- 1. यह कम्पनी रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्यों को एजीएम की सुचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। ई-वोटिंग तथा सदस्यों के लिये एजीएम में उपस्थित होने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। वीसी/सर्विसेस लिमिटेड की नियुक्ति की है।
- 2. कट-ऑफ तिथि अर्थात 22.09.2021 को जैसा भी मामला हो, भौतिक या डिमैट पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य हीं ई-वोटिंग तथा एजीएम में शामिल होने के लिये अधिकृत हैं।
- 3. रिमोट ई-वोटिंग सुविधा रविवार, 26.09.2021 को 9.00 बजे पूर्वा. (सर्वर समय) में शुरू होगी तथा मंगलवार, 28.09.2021 को 5.00 बजे अप. (सर्वर समय) में बंद होगी। उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निष्क्रिय कर दी जायेगी।
- 4. जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसमें फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे। यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करते हैं तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा किया गया मतदान लागु रहेगा।
- 5. यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद किन्तु कट-ऑफ तिथि अर्थात् 22.09.2021 को या उससे पूर्व कम्पनी का सदस्य बने हों तथा सचना के प्रेषण के बाद ई-मेल पता पंजीकत प्राप्त कर सकते हैं
- 6. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयरधारक बनते हैं तथा कट ऑफ तिथि अर्थात 22.09.2021 को शेयर धारित करते हैं, वे अपनी फोलियो सं./डीपी आईडी सं. का उल्लेख करते हुए info@masserv.com पर ईमेल भेजकर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि ऐसे शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के लिये (आरटीए/डीपी) के पास पहले से पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान युजर आईडी एवं पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- 7. सेबी सर्क्युलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 तिथि 9 दिसम्बर, 2020 के अनुपालन ई-वोटिंग प्रक्रिया विस्तार से एजीएम की सूचना में दी गई है।
- 8. स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में वर्च्युअल सभा में मतदान प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये कम्पनी ने श्री अनंत मिश्रा, मै. अनंत एंड क. के चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, आई चार्टर्ड के एकाउन्टैन्ट्स, 411, एंजेल मेगा माल, कौशाम्बी, गाजियाबाद-201010 को पर्यवेक्षक नियक्त किया है।

ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देशों के लिये सदस्य कृपया वार्षिक साधारण सभा की सूचना में ''टिप्पणी'' खंड देखें। ई-वोटिंग प्रक्रिया अथवा वर्च्युअल सभा में मतदान से संबंधित किसी भी पृछताछ के लिये शेयरधारक कम्पनी की वेबसाईट www.phoenixindia.com या ई-वोटिंग एजेन्सी की वेबसाईट www.evotingindia.com पर प्रकाशित शेयरधारकों के लिये यूजर मैन्युअल देखें। सदस्यगण ई-वोटिंग सुविधा अथवा वर्च्युअल एजीएम में मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्नों के लिये श्री शरवण मंगला, महा प्रबंधक, टी-34, 2रा तल, ब्लॉक टी, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट फेज 2 रोड, नई दिल्ली, दिल्ली-110020, ई-मेल:info@masserve.com, सम्पर्क नं.: +91 11 26387281/82/83 से भी सम्पर्क कर सकते हैं। बोर्ड के आदेश से

फीनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड के लिये

नरेन्दर मक्कर (DIN-00026857)

लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड

(सीआईएन: L74899DL1992PLC049022) **पंजीकृत कार्यालयः** एसेट संख्या ६, एरोसिटी होस्पिटैलिटी

डिस्ट्रिक्ट, नई दिल्ली-110037 दूरभाषः +91-11-4605 0101; फैक्सः +91-11-4605 0110

वेबसाइटः www.lemontreehotels.com ईमेलः sectdeptt@lemontreehotels.com

29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना – ई-वोटिंग की जानकारी

- 1. 1 सितम्बर, 2021 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस एवं जनसत्ता में, कम्पनी का एजीएम बृहस्पतिवार, 30 सितम्बर, 2021 को 3:00 बजे अपराह वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विज्अल साधनों के माध्यम से संचालित करने से सम्बद्ध प्रकाशित सूचना के आगे जानकारी दी जाती है कि, एतद द्वारा शेयरधारकों को अवगत कराया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') ने कम्पनी हेतु एवं उसकी ओर से वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट एजीएम की सूचना के साथ ही मंगलवार, 7 सितम्बर, 2021 को उन सभी शेयरधारकों को ईमेल कर दी है जिनका ईमेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरीयों के साथ पंजीकृत है।
- 2. वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की आह्त सूचना वेबसाइट www.evoting.nsdl.com, www.nseindia.com. www.bseindia.com, www.lemontreehotels.com पर भी उपलब्ध है।
- सभी सदस्यों को एतद द्वारा अवगत किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 को प्रात: 9:00 बजे आरम्भ होगी तथा बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को साय 5:00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा की अनुमति उक्त तिथि और समय के उपरान्त नहीं दी जाएगी। एनएसडीएल उसके पश्चात रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अधिकार को निर्धारित करने हेतु कट-ऑफ तिथि बृहस्पतिवार, 23 सितम्बर, 2021 है। जिन सदस्यों ने बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला हो, वे भी बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु पुनः अपना योट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।
- 4. कोई व्यक्ति, जो कम्पनी के शेयरों को अधिगृहित करता है और सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 23 सितम्बर, अहर के अनुसार शेयरों को प्रतिरक्षित रखता है, अपना फोलियों संख्या / डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर ईमेल भेजकर लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि यदि आप पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- रिमोट ई—वोटिंग (एजीएम से पूर्व तथा एजीएम के दौरान) से संबंधित किसी भी प्रश्न / शिकायत के सम्बन्ध में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु 'फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चनस' ('FAQs') एवं शेयरधारकों हेत् ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800 102 0990; 1800 22 4430 पर कॉल कर सकते हैं अथवा <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर अनुरोध भेज सकते हैं अथवा एनएसडीएल में सहायक प्रबंधक सुश्री सोनी सिंह से उपरोक्त निर्धारित ईमेल आईडी एवं टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड हस्ता / –

स्थान : नई दिल्ली निखिल सेठी दिनांक : 7 सितम्बर, 2021 ग्रुप कम्पनी सचिव एवं जीएम लीगल कॉनकॉर CONCOR

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. एक नवरत्न कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम) A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking) NSIC New NOBP Building, 2nd Floor, Okhla Indi. Estate (Opp. NSIC Okhla Netro station), New Delhi-110 020

निविदा सूचना (केवल ई-निविदा माध्यम से) नर्लेंड कंटेनर डिपो / दादरी, उत्तर प्रदेश में कार्गों हैंडलिंग की व्यवसायिक सेवाएं दो बोली प्रणाली में ऑनलाइन खर्ल –निविदा सह उलट नीलामी को केवल ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।

नेविदा सं CON/Area-I/TC/Cargo/Dadri/II/2021 हार्य का नाम इनलैंड कटेनर डिपो / दावरी, उत्तर प्रदेश में कार्गों हैडलिंग के लिए व्यवसायिक सेवाएं। नुमानित लागत ₹1,82,90,068.44 / -- 4+1 वर्ष हेत् (जीएसटी सहित)। विदा की अवधि रोहर राशि" सभी बोलीदाताओं के लिए छट। तावेज की लागत ₹1,000 / - ई-भगतान के माध्यम से सभी कर और शुल्क सहित। विदा प्रोसेसिंग फीस ₹4,720 / - ई-भूगतान के माध्यम से सभी करों और शुल्क सहित (अप्रतिदेय)। की की तारीख (ऑनलाइन) 08.09.2021 अपराहन 15:00 बजे से (21.09.2021 अपराहन 16:00 बजे तक)। मा करने की अंतिम तारीख एवं समय 22.09.2021 अपराहन 15:00 बजे तक।

ई-भगतान माध्यम से

ात्रता मानदंड और अन्य विवरणों हेतु कृषया www.concorindia.co.in अथवा eprocure.gov.in अथव www.tenderwizard.com/CCIL पर लोगओंन करें। बोलीदाताओं से वेबसाइट को नियमित रूप से देखने क मनरोप किया जाता है। कॉनकॉर किसी भी अथवा सभी निविदाओं को इसका बिना कोई कारण बताए अस्वीकर करने का मींकार सुरक्षित रखता है। संपूर्ण विवरणों हेतु www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉगऑन करें। वरिष्ठ महाप्रबंधक / सीएंडओ / क्षेत्र-

पंजीकृत कार्यालय: 15वीं मंजिल, इरोस कॉरपोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019

फैक्स नंबर: +91-120-4588513 | ई-मेल: Investor@raclgeartech.com वेबसाइट: www.raclgeartech.com

विशिष्ट संख्या शेयरो की शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) का नाम

संख्या तक बिपिन आर मेहता 0013143 22180-81 4817008 4817207

किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का उक्त शेयर प्रमाणपत्रों के संबंध में कम्पनी के प्रति कोई दावा हो, वे इस सुचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर ऊपर दिए गए पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी के पास ऐसे दावे दाखिल करें जिसके बाद किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा तथा कम्पनी डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जरी करेगी। आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड के लिए

स्थान : नोएडा दिनांक : 7 सितंबर, 2021

कार्यालय : एसपी-916, फेज-III, इण्डस्ट्रियल एरिया, जिला अलवर, भिवाड़ी-301 019, राजस्थान, दूरभाष नं. : 911-6176727, 911-6128880

दूरभाष नं. : 91-11-42515151, फैक्स : 91-11-42515100 चेबसाइट :www.ajantasova.com, ई-मेल : cs@ajantasova.com

30वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर तथा

ई-वोटिंग की जानकारी की सूचना

कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय परिपत्रों दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 ('एमसीए परिपत्र') के साथ पठित भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 एवं 15 जनवरी, 2021 ('सेबी परिपत्र') के अनुपालन में किसी एक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना कम्पनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्अल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से गुरुवार, 30 सितम्बर, 2020 को 2.00 बजे अप. आयोजित की जाएगी सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ही एजीएम में उपस्थित हो सकेंगे। वीसी/ओएवीएम सुविधा ^ह माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की परिगणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के उददेश्य से की जायेगी।

की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है और तदनसार, 30वीं एजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 मंगलवार, 7 सितंबर, 2021 को उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी सहभागियों के साथ पंजीकृत हैं। 30वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 कम्पनी की वेबसाइट www.ajantasoya.com तथ

प्रासंगिक परिपत्रों के अनसार, सदस्यों को 30वीं एजीएम के नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने

स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं अर्थात www.bseindia.com और और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं। एजीएम की सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के निर्देश : कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014

('नियम') के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 ('सुचीबद्धता विनियम') के अनुसार, कंपनी एजीएम में व्यवसाय के लेन-देन के लिए अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सविधा सहर्ष प्रदान कर रही है, और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान की सविधा के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') को नियुक्त किया है।

जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है. केवल वे ही वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से 30वीं एजीएम भाग लेने तथा 30वीं एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।

जाएगा। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी। वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला था, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम माध्यम से 30वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे अपना ई-वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे।

एक बार किसी संकल्प पर सदस्य द्वारा वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी। ई–वोटिंग के उद्देश्य के लिए कट–ऑफ तिथि गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 निर्धारित की गई है वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ तिथि तक कंपनी के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के चुकता मूल्य पर की जाएगी।

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और ईमेल द्वारा एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 तक शेयर धारण करता है, evot- $\mathrm{ing}(a)$ nsdl. $\mathrm{co.in}$ पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड भूल गया है, तो

एनएसडीएल से संपर्क कर सकता है। इलेक्टॉनिक वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा remote e-Voting user manual देख सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 1800-1020-990 और 1800-22-44-30 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड - ए विंग, कमला मिल्स

नहीं की है. वे अपना ई–मेल आईडी पंजीकृत करके रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। एजीएम के दौरान डीमैटरियलाइज्ड और भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए और उन शेयरधारकों

एजीएम की सूचना में प्रदान की गयी है। मैसर्स आर एंड डी कंपनी सेक्रेटरीज, दिल्ली के श्री देवव्रत देब नाथ (सदस्यता संख्या एफसीएस 7775), कंपनी सचिव, पूर्णकालिक कार्यरत को ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए

बुक क्लोजरः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के नियम 42 के अनुसार, सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक गुरुवार, 30 सितंबर, 2021 को दोपहर 2:00 बजे (आईएसटी) को होने वाली 30वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 से गुरुवार, 30 सितंबर, 2021 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 07.09.2021

आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात-362266

शाखा कार्यालय : डी-17, सेक्ट-3, नोएडा, उ.प्र. वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 13(2) (अधिनियम) के तहत मांग सूचना सम्पत्ति का विवरण ऋण राशि ऋण खाता सं. (रु.) (ख) (घ) (刊)

क्र. कर्जदार(रों) के नाम तथा पता बकाया राशि (रु.) सूचना की तिथि सं. (क) (퍟) (च) सुरेन्दर गौतम, 50-बी, एलआईजी फ्लैट्स उद्योग विहार, ब्लॉक ई-4, सेक्टर-82, नोएडा, महर्षि नगर, उत्तर बकाया मूलधन एरिअर्स 15.07.2021 30-06-202 फ्लैट नं. 3049, टावर/ LNDELHL-01180040504 (13.07.2021 तक उपचियत ब्लॉक, सीएसटी/गार्डन 3324532/ साथ हीं: मोन्स्टर डॉट कॉम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट नं. 5. ई.एफ.जी.एच.. सेक्टर-126. तपस्या बिल्डिंग विलम्बित प्रभारों तथा ब्याज होम्स, ईको विलेज-1, एक्सप्रैसवे. नोएडा. उ.प्र.-201304 सहित के द्वारा रु. 18,81,645/-प्लॉट नं. ८, सेक्टर-1, साथ हीं: फ्लैट नं. 3409, टावर/ब्लॉक, सीएसटी/गार्डन होम्स, ईको विलेज-1, प्लॉट नं. 8, सेक्टर-1, ग्रेटर (रु. अठारह लाख इक्यासी ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रेदश-नोएडा, उत्तर प्रेदश-201303 हजार छः सौ पैंतालिस मात्र) 201303 का सभी भाग साथ हीं: बी-64, एडिशनल टाउनिशप, एनटीपीसी बदरपुर, जैतपुर, दिल्ली-110044 2. रेखा गौतम 50-बी. एलआईजी फ्लैटस उद्योग विहार, ब्लॉक ई-4. सेक्टर-82. नोएडा, महर्षि नगर, उत्तर तथा हिस्सा साथ हीं: फ्लैट नं. 3409. टावर/ब्लॉक, सीएसटी/गार्डन होम्स, ईको विलेज-1, प्लॉट नं. 8, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रेदश-201303

जैसा कि आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड जिसका ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय है (यहाँ के बाद 'एबीएचएफएल' वर्णित) ने उक्त प्रत्येक ऋणधारकों के नाम के समक्ष कालम घ में वर्णित ऋण खाता सं. के माध्यम से कॉलम ग में लिखित पृथक साख सुविधा कॉलम क में वर्णित उक्त नामित ऋणधारकों को प्रदान किया था।

उक्त साख सुविधाएं अन्य बातों के अलावे कॉलम ख में वर्णित अचल सम्पत्ति पर गिरवी द्वारा प्रतिभृत है (यहाँ के बाद ''प्रतिभृत परिसम्पत्ति'' वर्णित)।

कि, ऊपर नामित ऋणधारक ऋण खाता के वित्तीय अनुशासन को कायम रखने में विफल रहे तथा एबीएचएफएल द्वारा व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया में प्रबंधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रत्येक ऋणधारक(कों) के नाम के समक्ष कॉलम 'ङ' में वर्णित राशि बकाया है।

उक्त ऋणधारकों की ओर से ऋण राशि के पुनर्भगतान में लगातार चुक के कारण उक्त ऋणधारकों की ऋण खाता को भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अंतर्गत क्रमशः कॉलम 'छ' में दर्शाई गई तिथि को एबीएचएफएल द्वारा गैर प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। तदुपरांत, प्रत्येक ऋणधारक को सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत कॉलम 'च' में उल्लिखित सुचना जारी की गई, वह भी अन्डेलिवर्ड/डेलिवर्ड रही है।

उपरोक्त चूक को देखते हुए एबीएचएफएल एतद्द्वारा ऊपर नामित ऋणधारकों को निर्देश देता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज, लागत एवं चार्जेज सहित ऊपर कॉलम 'च' में दर्शाई गई तिथि तक कॉलम 'ङ में दर्शाई गई सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान करें, अन्यथा एबीएचएफएल प्रतिभृत परिसम्पत्ति का कब्जा कर लेगा तथा कानून में एबीएचएफएल को उपलब्ध अन्य कार्रवाई भी करेगा।

कि, कृपया यह जान लें कि आप, ऊपर नामित ऋणधारक को एबीएचएफएल की विशिष्ट लिखित पूर्व अनुमित को छोड़कर किसी भी तरीके से प्रतिभूत परिसम्पित्त का (अन्तरण, बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप में) स्वत्व त्याग करने अथवा थर्ड पार्टी हित का निर्माण करने अथवा व्यवसाय करने से निषिद्ध किया जाता है। कृपया ध्यान रखें कि उसका किसी भी रूप में उल्लघंन करने पर एक वर्ष तक की अवधि का कैद अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।

से आपकी जोखिम, उत्तर दायित्व एवं लागतों पर आप एड्रेसी के विरुद्ध उपरोक्त किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

www.readwhere.com

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 6.9.2021

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली

CAPITAL

तिथि: 08.09.2021

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

वह www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password" विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है या टोल फ्री नंबर: 1800-1020-990 और 1800-2244-30 पर

जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिन्होंने कंपनी/आरटीए के साथ अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत

संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

कृते अजन्ता सोया लिमिटेड सुशील गोयल

8 सितम्बर, 2021 एनपीए

कि, कृपया ध्यान रहे कि यह वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत अंतिम सूचना है। यह कहना आवश्यक नहीं है कि एबीएचएफएल को पूरी तरह

23.09.2021 अपराहन 15:30 बजे।

आरएसीएल गियरटेक लिमिटेड

फोन: +91-11-66155129, +91-120-4588500

सीआईएन: L34300DL1983PLC016136

शेयर प्रमाणपत्रों के गुम होने की सुचना एतद्वारा सचित किया जाता है की कम्पनी द्वारा जारी निम्न शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के कथित रूप से गुम/स्थानच्यत

हो जाने की सूचना मिली है तथा उसके पंजीकृत धारक ने डप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कम्पनी के पास आवेदन किया है फोलियो नं. शेयरधारक

एतद्वारा आम जनता को किसी भी रूप में उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्रों की खरीद अथवा व्यवसाय के प्रति सतर्क

शगुन बाजपेयी कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

अजन्ता सोवा लिमिटेड

सीआईएन : L15494RJ1992PLC016617 कॉर्पोरेट कार्यालय :12वीं मंजिल, बिगजोस टॉबर, ए-s, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली-110 034

रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 27 सितंबर, 2021 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया

कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई - 400013 से संपर्क करें।।

के लिए जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की प्रक्रिया और रीति

(प्रबन्ध निदेशक (DIN: 00125275)

(छ)